



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2531]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934

No. 2531]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

**का.आ. 3048(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 591(अ), तारीख 27 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के छिन्दावाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(ए) के छिन्दावाड़ा से छिन्दावाड़ा/सिवनी जिला सीमा तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 29 मई, 2012 को "दैनिक भास्कर" और "जबलपुर एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के छिन्दवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (क) के छिन्दवाड़ा से छिन्दवाड़ा/सिवनी जिला सीमा खंड तक के लिए भूमि अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण								
क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि स्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	(1) घाटपरासिया	328/3	निजी	असिंचित	0.072	राजेन्द्र कुमार पिता प्रेमलाल साहू, रोशन पिता चैतराम सिंधी
				295/1	शासकीय	पहाड़ चट्टान	0.020	मध्य प्रदेश शासन
			(2) गढ़मारी	239/5	निजी	असिंचित	0.024	शंकरलाल पिता बच्चूमलडोडानी सिंधी, शिवकुमार पिता हरगोविन्द मुंगिया

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयू/सीएचडब्ल्यू/एलए/2010]

माया प्रकाश, उप-सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2012

**S.O. 3048(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 591 (E) dated 27 March, 2012, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 69 (A), on the stretch of land of Chhindwara to Chhindwara/Seoni District Border in District Chhindwara, in the State of Madhya Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” dated 29 May, 2012 and “Jabalpur Express” both dated 29 May, 2012 in under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Chhindwara to Chhindwara/Seoni District Border Section of NH-69 (A) in District Chhindwara in the State of Madhya Pradesh.								
Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the Owner / Interested Person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chhindwara	Chhindwara	(1) Ghat Parasiya	328/3	Private	Non-Irrigated	0.072	Rajendra Kumar S/o Premlal Saho, Roshan S/o Chaitram Sindhi
				295/1	Govt.	Pahad Chattan	0.020	Madhya Pradesh Government
			(2) Ghadhari	239/5	Private	Non-Irrigated	0.024	Shankarlal S/o Bachhumal Dodani Sindhi, Shivkumar S/o Hargovind Mungiya

[F. No. NHAI/PIU/CHW/LA/2010]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.